

# A Infrastructure Limited

(Formerly Shree Pipes Limited)

Regd. Office & Works : Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan) Phone : 01482-286102, FAX : 01482-286104

Web Site: [www.ainfrastructure.com](http://www.ainfrastructure.com), Email: [cs@kanoria.org](mailto:cs@kanoria.org), CIN : L25191RJ1980PLC002077

Ref No.: AINFRA/2019-20

Date: 03.02.2020

The Manager (Listing & Corporate Services)  
Bombay Stock Exchange Ltd.  
Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai  
Maharashtra -400001

**BSE Code: 539620**

**Sub: – Financial results for the quarter ended 31.12.2019- Publication in Newspaper**

Dear Sir,


In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper publication copy of newspaper Financial Express, English and Rajasthan patrika, Hindi editions dated 02.02.2020 of financial results for the quarter ended 31.12.2019.

Kindly take on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For A INFRASTRUCTURE LIMITED

  
Lokesh Mundra  
Company Secretary

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

HOWARD HOTELS LIMITED

"IMPORTANT"

Date : January 31, 2020

DIN: 02448540

## A Infrastructure Limited

(Formerly Shree Pipes Limited)

Regd. Office & Works : Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhilwara (Rajasthan)

Phone : 01482-286102, FAX : 01482-286104, Web: www.ainfrastructure.com, Email: cs@kanoria.org, CIN : L25191RJ1980PLC002077

### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED ON 31.12.2019

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter Ended			Nine Month Ended		Year Ended
	Unaudited			Unaudited	Audited	
	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
Total Income from Operations (net)	5366.07	5138.08	5358.96	19,696.35	20,053.76	26035.35
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.61	77.33	17.76	643.26	1,101.74	964.57
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.61	77.33	17.76	643.26	1,101.74	964.57
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.20	48.99	8.99	569.09	1034.66	842.98
Other comprehensive income for the period	0.45	13.36	8.40	10.85	13.78	33.80
Total comprehensive income for the period	8.65	62.35	17.39	579.94	1,048.44	876.78
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each)	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29
Total Reserves i.e. Other Equity	-	-	-	-	-	3,065.54
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 5/- each)						
Basic:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05
Diluted:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 5/- each)						
Basic:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05
Diluted:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05

#### NOTES:

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Directors at its meeting held on 01<sup>st</sup> February, 2020.
- The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of these financial results as required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- The Company has only one operating segment i.e. A.C. Sheets and Pipes.
- The Company has entered into an agreement on 25<sup>th</sup> June, 2018 and extension agreement dated 20<sup>th</sup> December, 2018 for purchases of land and related assets of distillery from M/s. J.R. Organics Limited for a sum of Rs. 28.50 Crore. An advance of Rs. 12.61 Crore has been given by the Company to M/s. J.R. Organics Limited till 31<sup>st</sup> December, 2019.
- The Company has adopted Ind AS 116 - 'Leases' which is mandatory for reporting periods beginning on or after 1 April 2019. Application of Ind AS 116 does not have any material impact on the financial statements of the Company.
- Figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to current period's classification.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Nine month ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine month ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ainfrastructure.com).

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/  
(Kuldeep Kaw)  
Director  
DIN: 07882201

Place : New Delhi  
Date : 01.02.2020



**J.L. MORISON (INDIA) LIMITED**

(CIN: L51109WB1934PLC088167)

1-10-2019  
1-01-2020  
Details can be sought by emailing at: crp.pdadvisory@gmail.com  
available on the website of IBB (www.ibbi.gov.in) or can be sought by emailing at: crp.pdadvisory@gmail.com  
10.02.2020  
17.02.2020  
22.02.2020  
27.02.2020  
22.02.2020  
Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix and Information Memorandum, shall be sent by email upon verification of eligibility criteria as per point no. 8 above and subject to receipt of undertaking under section 29 (2) of IBC, 2016.  
23.03.2020  
Resolution Plan shall be submitted in a sealed cover at address mentioned at item no. 21  
12.04.2020  
Maya Gupta; Regn No. IBB/PA-002/IP-N00363/2017-18/11061  
Maya Gupta  
R/o : 3685/7, Narang Colony, Tri Nagar, Delhi-110035  
Email ID : fcsmayagupta@gmail.com  
Maya Gupta  
C/o : 701, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008  
Email ID : crp.pdadvisory@gmail.com  
Further information can be obtained from Resolution Professional through email id : crp.pdadvisory@gmail.com  
02.02.2020  
Maya Gupta IBBI Registration No.: IBB/PA-002/IP-N00363/2017-18/11061  
7, Narang Colony, Tri Nagar, Delhi-110035  
For PD Advisory Services LLP

